

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

अस.पत्रिका

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 1970/कार्तिक 26, 1892

No. 415] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1970/KARTIKA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सय्या हो जाता है जिससे कि यह अलग सक्लन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

### ORDER

*New Delhi, the 17th November, 1970*

S.O. 3764.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3712, dated the 29th November, 1965, the management of the industrial undertaking known as the India United Mills Ltd., Bombay (Maharashtra), had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a period upto and inclusive of the 28th November, 1970;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order Mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 28th November, 1972.

Further, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 3712, dated the 29th November, 1965, and in supersession of the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1210, dated the 26th March, 1968, the Central Government hereby authorises with effect from the 29th November, 1970, the Maharashtra State Textile Corporation Ltd., to take over the management of the whole of the India United Mills Ltd., Bombay, vice Shri S. D. Mehta.

[No. F. 7/91/TEX(G)/70]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

## विदेशी व्यापार मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1970

का० आ० 3764:—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3712, दिनांक 29 नवम्बर, 1965 द्वारा इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई (महाराष्ट्र) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उपरिवर्णित आदेश में निविष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 28 नवम्बर, 1970 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण दो वर्ष की अवधि के लिए और बना रहना चाहिए।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 28 नवम्बर, 1972 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी शामिल है और बना रहेगा।

इसके अतिरिक्त, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3712, दिनांक 29 नवम्बर, 1965, में आंशिक संशोधन करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1210 दिनांक 26 मार्च, 1968 का अधीकरण करते हुये केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि० का 29 नवम्बर, 1970 से इंडिया यूनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई का संपूर्ण प्रबन्ध श्री एम० डी० मेहता के स्थान पर अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती हैं।

‘का० सं० 7 (91) टैक्स (जी)/70।’

सी० एस० रामचन्द्रन,

अवर सचिव, भारत सरकार।